

जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-74

दिनांक- 06.09.2021

थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 16 अदद मोबाइल फोन, एक लैपटॉप व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ० अवधेश सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री योगेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 06.09.2021 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इन्टेलीजेन्स के आधार पर 02 शातिर मोबाइल चोर 1. विमलेश कुमार पुत्र लवकुश कुमार निवासी ग्राम दौलतपुर मजरे हजरतपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी 2. सूरज कुमार पुत्र शम्भू महारा निवासी सरैया थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को सरैया मोड़ ग्राम इज्जतपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 16 अदद मोबाइल फोन, एक अदद लैपटाप व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल प्लसर को बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु०अ०स०-364/2021 धारा 411/413 भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग अपनी मोटर साइकिल प्लसर से बाराबंकी, सीतापुर, गोण्डा, बहराइच आदि जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र में घूमते रहते हैं तथा घरों/दुकानों आदि स्थानों से मोबाइल फोन एवं लैपटॉप की चोरी कर लेते हैं। चोरी किये गये मोबाइल/लैपटॉप को एक जनपद से दूसरे जनपद या अन्य थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेच देते हैं। अभियुक्तगण द्वारा इस तरह से लगभग ढाई माह पूर्व थाना फतेहपुर के कादिराबाद में एक व्यक्ति का रियलमी कम्पनी का मोबाइल सोते हुए तथा ग्राम सवितापुर में घर के बरामदों में चार्जिंग में लगे वीवो मोबाइल फोन को चोरी कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं०-362/21 व 363/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विमलेश कुमार पुत्र लवकुश कुमार निवासी ग्राम दौलतपुर मजरे हजरतपुर थाना फतेहपुर बाराबंकी (उम्र 26 वर्ष)

2- सूरज कुमार पुत्र शम्भू महारा निवासी सरैया थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी। (उम्र 25 वर्ष)

बरामदगी का विवरण -

1. 16 अदद मोबाइल फोन

2. 01 अदद लैपटॉप

3. 01 अदद प्लसर मोटर साइकिल नम्बर-UP 32 EK 9782 (घटना में प्रयुक्त)

पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार मौर्या थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

2- 30नि० श्री राम निरंजन थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

3- 30नि० श्री जैद अहमद थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

4-का० मुलायम सिंह यादव, का० राजबहादुर सिंह थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

5- का० पवन सैनी, रि०का० अशोक कुमार, रि०का० शुभम शर्मा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।